



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २३२]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून ७, १९७७/ज्येष्ठ १७, १८९९

No. २३२]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 1977/JYAISTHA 17, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Banking Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th June 1977

S.O. 382(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government being requested so to do by Bank of India, establishes, with effect from the 7th June, 1977, a Regional Rural Bank in the State of Uttar Pradesh under the name of Hardoi-Unnao Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the districts of Hardoi and Unnao in the State of Uttar Pradesh.

[No. F. 1-1/77-RRB (I)]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(बैंकिंग पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, ४ जून, १९७७

क्र० आ० ३८२(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बक अधिनियम, १९७६ (१९७६ का २१) की धारा (३) की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ

(2041)

इण्डिया के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश राज्य में 7 जून, 1977 से हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है। यह बैंक उत्तर प्रदेश राज्य के हरदोई और उन्नाव जिलों की स्थानीय सीमाओं में अपना कारोबार करेगा।

[सं. एक० 1-1/77-भार०भार०बी० (1)]

S.O. 383(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of India, by which Hardoi-Unnao Gramin Bank has been sponsored, specifies Hardoi as the place where Hardoi-Unnao Gramin Bank shall have its head office

[No. F. 1-1/77-RRB(II)]

का० प्रा० 383(अ) —क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक आफ इण्डिया के परामर्श से हरदोई को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं. एक० 1-1/77-भार०भार०बी० (2)]

New Delhi, the 7th June 1977

S.O. 384(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Hardoi-Unnao Gramin Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-1/77-RRB (III)].

K. P. A. MENON, Addl Secy.

नई दिल्ली, 7 जून, 1977

का० प्रा० 384(अ) —भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (III) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक को उक्त उपखण्ड के प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिबूत करती है।

[सं. एक० 1-1/77-भार०भार०बी० (3)]

के० पी० ए० मेनन, अपर सचिव।

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

Bombay, the 7th June 1977

S.O. 385(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely —

Hardoi-Unnao Gramin Bank, Hardoi.

[No. DBOD 154/INCL/C.102/77]

S. D. DESHMUKH,

Executive Director.

भारतीय रिजर्व बैंक
(बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग)

बम्बई, 7 जून, 1977

का० प्रा० 385(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात् :—

हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक, हरदोई ।

[सं० डीबीओडी 154 'आई०एन०सी०एल०/सी० 102'77]

एस० डी० देशमुख;

कार्यपालक निदेशक ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

